

## **AKASA FINANCE LIMITED**

(Formerly known as Pooja Finelease Ltd.)
Corporate Office: Plot No. 56/6, Block-C, Sector-62
Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh - 201309

### By Post/Pasting /Publication/E-mail/WhatsApp

Date:29.04.2025 **To.** 

Shri Rajnish Karki S/o Shri J.S. Karki,
 Vill-Ramadi, Post-Shaama Patti,
 Vichalladaanpur, Tehsil-Kapot, District-Bageshwar
 Uttarakhand -263633
 rajnish@karkiassociates.com
 ishaan2495@gmail.com
 98730-89538
 95828-12402

Also at.

Vill- Naini, Ranikhet, District- Almora Uttarakhand- 263645

### 2. Smt. Manisha Rajnish Karki

W/o Shri Rajnish Karki, Vill-Ramadi, Post-Shaama Patti, Vichalladaanpur, Tehsil-Kapot, District-Bageshwar Uttarakhand -263633 manishakarki84@gmail.com 95828-12402

Also at.

Vill- Naini, Ranikhet, District- Almora Uttarakhand- 263645

SUB: Auction Sale Notice for Sale of Immovable Property under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ('the said Act') read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ('the said Rules').

REF: Loan Account No. TL00035

Dear Sir/Madam,

This has a reference to legal action initiated by Akasa Finance Limited (Previously known as Pooja Finelease Limited) for the purpose of enforcing the security interest for recovery of outstanding dues in exercise of powers under SARFAESI Act, 2002 and the Rule made









## **AKASA FINANCE LIMITED**

(Formerly known as Pooja Finelease Ltd.)
Corporate Office: Plot No. 56/6, Block-C, Sector-62

Corporate Office: Plot No. 56/6, Block-C, Sector-62 Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh - 201309

there-under. You have failed to make payment towards the discharge of your liabilities to

Akasa Finance Limited, it is proposed to Auction the below mentioned immovable secured asset under the provisions of the SARFAESI Act, 2002. It is again brought to your kind notice that Aksa Finance Limited through Ld. Court Receiver has taken physical possession of the property on 12.03.2025.

A redemption notice dated 18.03.2025 has been already issued to you the addressees in compliance of rule 8(6) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 towards the right to redemption under SARFAESI Act with a demand to the outstanding dues with cost and charges and expenses and further contractual interest till payment, due and payable against your loan account at any time on or before 30 days from the date of receipt of redemption Notice and you were also informed and notified that the said property in question shall be sold by way of e-auction or through private treaty.

It may be added that a sum of Rs.7,07,45,808/- (Rupees Seven Crore Seven Lakhs Forty Five Thousand Eight Hundred And Eight Only) is outstanding and payable as on 18.10.2023 and the same as of 12.03.2025 is Rs.7,60,63,276/- (Seven crore sixty lakh sixty three thousand two hundred seventy six Only) along with future contractual interest in the said Loan account, which you may please take a note of.

It is noted that you have failed to redeem the said property in terms of the redemption notice dated 18.03.2025, therefore, the undersigned has no option but to put the said property for e- Auction scheduled on 07.06.2025.

### **Description of the property:**

"Entire Ground Floor erected on L-1/13, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016 admeasuring 625 sq. yards, by virtue of Registered Sale Deed having registration No. 3735 in book No. 1, Volume No. 9164".


Date: 29th April, 2025

For Akasa Finance Limited

Place: Delhi Authorised Officer

For any query, please contact Mr. Brajesh Pandey on +91-97171-71117







# यूपीएससी उत्तीर्ण युवाओं से देश को बहुत उम्मीद' सोशल मीडिया पर जारी हुई

# भारतीय प्रशासनिक सेवा व अन्य सेवाओं में सफल हरियाणा के अभ्यर्थियों को सम्मानित करते हुए बोले सीएम सीईटी की फर्जी अधिसूचना

🗕 हरियाणा के धाकड़ छोरे व छोरियां छोडेंगे प्रदेश की अमिट छाप

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग दारा आयोजित यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हरियाणा के 64 अभ्यर्थियों को सम्मानित कर बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने में अपना योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने निवास संत कबीर कुटीर में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा न आवाजत सिवल सवा पराज्ञा 2024 के नवचयनित हरियाणा के होनहार अध्यर्थियों के सन्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री कहा कि आप सभी युवा विकसित भारत के सपने की नींच व कर्णधार



चंडीगड़ स्थित सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित संघ लोक सेवा आयोग प समारोह में मौजूद मुख्यमंत्री नायव सैनी, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी मुख्यमंत्री

एकता के भाव को मजबूत करने के साथ-साथ हरियाणा का भी नाम

ग करण। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भी मुख्यमत्रा न कहा कि आप भा दूढ निध्य कड़ी मेहनत और सच्ची लगन की बदौलत इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को और आपके अधिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग

विश्वास है कि आप देश के हर हिस्से ग्रंथ के हर अध्याय से सीख लेने का में पहुंचकर भारत की अनेकता में आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गीता हमें कमें का संदेश देती है और हमे कर्म से लोगों की भलाई करनी है। इसी का अनुकरण करते हुए आप अपनी आगामी सेवाओं के माध्यम से देश की भलाई का कार्य करेंगे। इस दौरान सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग ने कहा कि आप एक बहुत कठिन परीक्षा पास करके आए हो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने करिन

बिना खर्ची-पर्ची के नौकरी पाने वाले युवाओं की कहानी: फतेहाबाद जिले के ढाणी गोपाल गांव रहने वाले अजय कोलिया ने कहा कि इससे पहले उन्हें हरियाणा सरकार में ग्राम सचिव की और उनके भाई को हरियाणा पुलिस में बिना खर्ची-बिना पर्ची के नौकरी मिली थी।

कहा कि वे छोटे से गांव की रहने बाली हैं। उनके पिता किसान हैं और माता गृहणी हैं। इसके बावजूद अभिभावकों ने उसे पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेजा। तब लोगों ने काफी ताने दिए थे कि लड़की की उम्र शादी की हो गई, लेकिन अब भी पढ़ाई करवा रहे हो। माता-पिता ने किसी की परवाह नहीं की और उसका साथ दिया। इसी साथ की वजह से उसे यूपीएससी की परीक्षा में 233वां स्थान मिला है। अब ताने देने वाले लोग ही उनको बधाई दे रहे हैं।

महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली समिता काटकाड़े टाकुर ने बताया कि उन्हें इससे पहले हरियाणा सरकार में मेरिट के आधार पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की नौकरी मिली थी और वर्तमान वे कैथल के गुहला खंड में कार्यरत हैं। नौकरी के माथ-माथ परीक्षा की तैयारी करती रही और अब ये मुकाम हासिल किया है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब आप

🛡 प्रदेश भर के युवाओं में मची अफरा-तफरी

 आयोग के चेयरमैन ने जांच के बाद कहा फर्जी है अधिसचना

हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के आयोजन को लेकर मची गफलत के बीच सोमवार को देर रात किस्मी शारारती तत्व ने का दर रात ।कसा शरारा । तस्य । सीईटी का शेड्यूल जारी कर दिया। यह कार्यक्रम् जारी होने से पूरे हरियाणा में शोर मच गया।

सीईटी के आयोजन को लेकर कई माह से गफलत चल रही है। सरकार ने पहले 31 दिसंबर और फिर 31 मार्च तक सीईटी आयोजित करवाने का दावा किया था। इसके बाद मख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष

हुए ऐलान किया था कि मई माह में सोईटी का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद सीएमओं के अधिकारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी लगातार बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इन बैठकों के आधार पर अटकलें चल रही हैं कि दो मई से प्रदेश में सीईटी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बीच सोमवार की रात किसी ने सोशल मीडिया पर आयोग के हवाले से सीईटी का शेडयल जारी कर दिया। फर्जी नोटिफिकेशन के मुताबिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 2 मई से शरू होनी बताई गई। दो मई तारीख लिखी होने के कारण प्रदेश भर के युवा सतर्क हो गए और रात में ही यह अधिसूचना पूरे हरियाणा में फैल गई। इसके बाद देर रात हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी भी सतर्क हो गए। आयोग के चेयरमैन ने जांच के बाद देर रात फेसबुक पर पोस्ट

जारी करते हुए इस अधिसूचना को पूरी तरह से फर्जी बताया।

🔵 किशोर समेत चार

पायनियर समाचार सेवा। जींद

हरियाणा के जींद में कड़ा बीनने वाली

एक महिला को उसकी झुग्गी से घसीटकर कूड़े के ढेर में ले जाया गया

और उसके साथ कथित रूप से

सामहिक बलात्कार किया गया तथा

लोग गिरफ्तार

गिरफ्तार किया है।

<u>मां-बेटी</u> से सामृहिक बलात्कार

### नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणाः ढांडा

बन्गा हार्ट्याणाः द्वाडा न बाबैन। शिक्षा मंत्री महिराल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे प्रदेश में लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बनेगा। इस शिक्षा नीति में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ उद्यमिता विषय को पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें इंटर्निशिप करना भी अनिवार्य होगा। इस तरह की पढ़ाई करके युवा बेरोजगारों की लाइन में लगने की बजाय खुद का रोजगार करने योग्य होंगे। यह तभी संभव होगा जब हमारे शिक्षक बच्चों को सरकार की नीति और सोच के अनुसार तैयार किए हुए पाठ्यक्रम को लागू करवाएंगे। शिक्षामंत्री मंगलवार को संजय गांधी ओमपकाश गर मेमोरियल स्कूल बाबैन में आयोजित वार्षिक उत्सव एवं परितोषित वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, संस्था के अध्यक्ष पवन गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर में बनाए जाने वाली यज्ञशाल

# पंजाब ने हरियाणा की पानी आपूर्ति घटाई

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ्

पंजाब ने हरियाणा को भाखड़ा के माध्यम से दिए जाने वाली पानी में पांच हजार क्यूसेक की कटौती कर दी है। जिससे हरियाणा के करीब आधा दर्जन जिलों में पानी का संकट पैदा हो गया है। आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है। इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार अभी चुप है लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मानू ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर कहा है कि पंजाब के पास को देने के लिए अतिरिक्त

पाना नहा ह। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की निगरानी में पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा व राजस्थान को हर साल पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई दी जाती है। वाटर अलॉटमेंट का यह सीजन हर साल 21 मई से 21 मई तक की अवधि के लिए मान्य होता है। इस नहरी पानी से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लाखों एकड भिम की सिंचाई होती है। इस नहर का पानी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जहां पानी

🗕 नौ हजार क्यूसेक के मकाबले दे रहा चार हजार क्यूसेक पानी

## पंजाब के सीएम बोले नहीं है एक बूंद पानी

की कमी होती है। पंजाब का टावा है कि हरियाणा को नौ हजार क्यूसेक पानी की सप्लाई की जाती है। हरियाणा का जल प्रबंधन सही नहीं था। हरियाणा सरकार अपने तय कोटे का इस्तेमाल मार्च में ही कर चुकी है। जिसके बाद पंजाब ने हरियाणा को दिए जाने वाले पानी में पांच हजार क्यूसिक की कटौती कर दी है। इसे लेकर हरियाणा के हिस्सर फतेहाबाट सिरसा, रोहतक, महेन्द्रगढ़ समेत कई जिलों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। यह किल्लत अन्य जिलों को भी प्रभावित कर सकती है। आने वाले दिनों में पेयजल संकट गंभीर रूप धारण कर सकता है। इस विवाद के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब ने मंगलवार को पंजाब के मस्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत

की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक की जिया के मुख्यमंत्री व एक वीडियो जारी कर पलटवार किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा का जल प्रबंधन सही नहीं है। हरियाणा ने पानी का इस्तेमाल किफायती तरीके से नहीं किया है। जिसके चलते हरियाण अपना तय कोटा मार्च में ही खत्म कर चुका है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब द्वारा मानवता के आधार पर के लिए हरियाणा को अभी भी चार हजार क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। हालांकि तय नियम व शतों के अनुसार यह पानी भी नहीं दिया जा सकता है। भगवंत मान ने हरियाणा में पानी की कमी को लेकर सझाव दिय है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को पंजाब के द्रैम में द्रायवर्र करा है। पंजाब के द्रैम इस में डायवट करा दे। पंजाब के इस में जब पानी आएगा तो वह हरियाणा को भेज दिया जाएगा। मान ने कहा कि भाजपा बीबीएमबी के माध्यम से दबाव बना रही है। पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल आज के दिन के मुकाबले पौंग

डैम में 24 फुट तो रणजीत सागर डैम

में 39 फट पानी कम है।

वह सड़क परशुराम चौक से लेकर बागवाली गली तक आरसीसी सीमेंट की बनाई जाएगी जिस पर व्यवस्था भी की जाएगी।

## पौने दो करोड रुपए से बनेगी पल्ला तिलपत सडकः नागर

 मंत्री ने ठेकेदार को दी हिदायत, बोले, समय पर पूरा हो विकास कार्य

सरकार की इस पारदर्शिता के चलते

वे नौकरी के साथ तैयारी करते रहे और अब यूपीएससी में सफलता

हासिल की। इसी प्रकार फतेहाबाद के

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को तिलपत विधानसभा क्षेत्र की पल्ला ातरापत विधानसभा क्षत्र का परला तिलपत सङ्क को बनाने के काम की शुरुआत करलाई। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय बुजुर्गों के हाथ नारियल फुड़वाया साथ ही ठेकंदार को समय पर काम पूरा करने की हिदायत दे डाली।

करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी साथ ही करीब 36 लाख की लागत से सीवर की

इस अवसर पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तेजी से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। पूरे तिगांव विधानसभा में चल रहे विकास कार्य इस बात का सबत हैं। नागर ने ठेकेदार और मौजद अधिकारियों से कहा कि वह समय पर सड़क और सीवर की व्यवस्था करके दें जिससे कि लोगों को इसका स्तविक लाभ मिल सके। नागर ने



बताया कि हर विकास कार्य पर समय सीमा का ख्याल रखा जा रहा है वहीं की क्रालिटी पर भी नजर रखी जा रही है।

इसके लिए सभी अधिकारियों इसक लिए सभा आध्कारिया और टेक्केटारों को हिंदायत दी जा चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पुष्कर राम पूर्व

इस अवसर पर पुष्कर राम पूज सरपंच, पार्षद लाल मिश्रा ,वासुदेव भारद्वाज, प्रहलाद शर्मा, ओम दत्त शर्मा, प्रवेश शर्मा, जयपुल शर्मा, बूज गोपाल शर्मा. बबल बैसला. प्रदीप अभित भारद्वाज, भूपेंद्र शर्मा, शीशराम अवाना, मुकेश शर्मा सराय आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

### परशुराम जन्मोत्सव पर सुन्दरकांड का पाठ व भण्डारे का आयोजन

फरीदाबाद। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव पर मोहयाल सभा फरीदाबाद द्वारा एनएच-5 नेशन हट के मोहयाल भवन में सुन्दरकांड का पात व भण्डारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बडखल के विधाधक धनेश अदलक्खा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभा के प्रधान रमेश दत्ता,महासचिव केएस बाली,वरिष्ठ उप्रपधान नगेन्द्र दत्ता,उपप्रधान प्रमोद दत्ता व विनय बक्शी,कोषाध्यक्ष मिथलेश दत्ता, संगठन सचिव भारत भूषण दत्ता न विधायक धनेश अदलक्खा का मोहयाल भवन में पधारने पर फुलों की माला से स्वागत और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन सभा की सरंक्षक सुमन दत्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर धनेश अदलक्खा ने कहा कि परशराम जयंती का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आर्दश नहीं है,वे संपूर्ण हिन्दु समाज के है और वे चिरंजीवी है। भगवान विष्णु ने पापी, विनाशकारी तथा अधार्मिक राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार हरने हेतू परशुराम जी के रूप में छउवा अवतार धारण किया था। प्रधान रमेश दत्ता ने कहा कि त्रैतायुग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे।

PUBLIC NOTICE LOSS OF SHARE CERTIFICATE

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह वीभत्स घटना 21 अप्रैल की रात में हुई थी। तीन दिन बाद 35 वर्षीय इस महिला की शिकायत के आधार पर प्राथमिको दर्ज की गई। महिला सदमे में थी और दो–तीन दिन बाद वह हिम्मत जुटा सकी। एक अधिकारी के मुताबिक, इस महिला का एक पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे घसीटकर कुड़े के ढेर में ले जाया गया और उसके साथ

के बाद बच्ची की हत्या महिला के साथ यह वारदात हुई तब उसका पति घर पर नहीं था। अधिकारी के अनुसार, महिला की बेटी अपनी मां को ढूंढ़ती रोती-चिल्लाती जब

कूड़े के ढ़ेंर पर पहुंची तब आरोपियों ने उसके साथ भी बलात्कार किया एवं गला घोंटकर उसे मार डाला। पुलिस ने बताया कि परिवार ने बच्ची के शव को दफना दिया था, लेकिन उसकी मां के होश में आने और 24 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद खुदाई कर शव को बाहर निकाला

साभूहिक बलात्कार किया गया तथा उसकी पांच साल की बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया गया एवं उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पांच दिन . पलिस के मताबिक, आरोपियों बाद 26 अप्रैल को पुलिस ने एक किशोर समेत चार आरोपियों को की पहचान हामिद खान (46), शिवा और बीरू (दोनों 18 साल के हैं) और 13 वर्षीय एक लड़के के रूप में हुई है। उन्हें 26 अप्रैल को पकड़ा गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें एक महिला से शिकायत मिली थी उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ सामृहिक बलात्कार किया गया और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच में पता चला कि लड़की का भी यौन

उत्पोदन किया गया और उसकी इत्य

कर दी गई। अधिकारी ने कहा, प्रारंभिक जांच के दौरान, यह सामने

# सामृहिक बलात्कार किया गया। जब आया कि कहासूनी हुई थी।

# APPENDIX IV-A [Under Rule 8(6)0f Security Interest (enforcement) Rules, 2002] E-Auction Sale notice for Sale of Immovable Property

Name of Borrower/ to Borrower(s) / security provider(s)	Description of Property	Date of Presenting	Date of Demand Natice	Last Date for submission of BID/ EMD	Date & Time of E-Auction	Reserve Price (Rs)	Earnest Money Deposit (10%) (Rs.)	Amount Due as on 18.10 2023
Stri Bajnish Kocki Sjo Stri J.S. Stri J.S. Kocki (Burower). Stri. Man réa Bajnish Kocki Vilo Stri Bajnish Karki (Co- Borrower)	Errise Oreund Floor erected on L-1/13. Hose Kirles Errise Chair Hose Kirles Errise Chair Hose Kirles Errise Chair Hose Kirles Errise Chair Hose Kirles Hose Chair Hos	12.03. 2025	1818. 2323	06 06 2025	or os 2025 from 11 am on ward til 4 pm	(Rupees Ten Crore	Only)	Po 7,07-15,908 (Rupeas Seven Cron Seven Liablis Forty Five Thousand Eight Hundrad And Eight Only) se on 12,05,202 (Seven Crone stery list pacy three thousand two further sevently was repeatly and properly sevently seven

	Details
Name of Bank & Branch	ICIC BANK LTD, MOT NAGAR, DELH
Name of Beneficiary	AKASA FINANCE LIMITED
Account No.	036405003562
FSC Cape	ICID1002155

### प्लंबेक्स एक्जबिशन में विलो ने कंपनियों से सहयोग बढाया

नई दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्लंबेक्स इंडिया एकजिंबशन में भाग लेने वाली वैश्विक . जल प्रबंधन समाधान प्रदाता विलो माथर एंड प्लैट पंप्स प्रा. लि. ने नई दिल्ली के प्रमुख सेक्टर के ठेकेदारों, विक्रेताओं और डेवलपर्स के साथ अपने सहयोग को और मजबूत किया। कार्यक्रम में कंपनी ने अपनी नई आई-5 मीरीज पंप और उच्च दक्षता वाले मिक्सर सहित नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया, जो पीने के पानी की आपर्ति ईटीपी और एसटीपी के लिए उपयुक्त हैं। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विनोद पवार ने कहा, विलो की फायर-फाइटिंग पंप श्रृंखला पहले से ही दिल्ली की ऊंची इमारतों, मेट्रो स्टेशनों और अस्पतालों में उपयोग हो रही है। कंपनी की दिल्ली-पनसीआर में मजबूत उपस्थिति इसके निरंतर सहयोग और शहरी विकास में योगदान को दर्शाती है।

### हरियाणा के यवाओं को पहले मिलें नौकरियां: हुड्डा

चंडीगढ़। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में नौकरियों पर पहला अधिकार हरियाणा के मूल निवासियों का होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा, अगर सभी अन्य राज्य अपनी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हैं, तो हरियाणा में भाजपा सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। हुड्डा ने दावा किया कि राज्य के युवाओं को नौकरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में नंबर एक राज्य है।

### मैटर ईवी बाइक एरा को अन्य शहरों में उतारेगी

नई दिल्ली। दुनिया की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक एरा का निर्माण करने वाली मैटर बेंगलुर के बाद अब देश के अन्य बड़े शहरों में लॉन्च करने के लिए तैया है। कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ मोहाल लालभाई ने कहा मैटर की देशकापी विस्तार की योजना के तहत अगले 45 दिन में एग को पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कोयंबटूर, मुंबई, जयपुर, सूरत और राजकोट में लॉन्च किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना मंजूरी संख्या SEAC/HR/2024/122 और ईसी पहचान संर FC24C3801HB5849934N दिनांक 06/12/2024 को M/S KAMAL IDEAL INFRATECH PRIVATE LIMITED AND OTHERS हेतु प्रश्ताबित डेबलेपमेंट ऑफ रेजिडॉशियल ग्रुप हार्डासंग कॉलोनी लोकेटेड एट सेक्टर 64 सोनीगत् - बुंडली मल्टीफंक्शनल अर्बन जॅम्प्लेक्स हरियाणा को प्रयादरण मंजरी प्रदान की गई है

निकासी पत्र की प्रति MOEFCC/SEIAA की वेबसाइट पर उपलब्ध

PUBLIC NOTICE

HIVKANT ARORA, ADVOCATE OR M/S INTELLECTIVE LAW OFFICES

### THE PIONEER O LASSIFIED

CHANGE OF NAME

I, HARSHIT SONI S/O Sh Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027 have changed my name from HRITIK to HARSHIT SONI and henceforth I will be known as the HARSHIT SONI for all

PD(1948)C I, hitherto known as SHARAD RAJWANSHI son of Mr DUSHYANT GUPTA, ar DUSHYANT Advocate by Profession and residing at C-19, First Floor, Ashoka Enclave, Peera Garhi, New Delhi 110087 changed my name and shall hereafter be known as

PD(1950)A

LOST & FOUND I. PREM KSHETRAPAL, wife of SH. SUBHASH CHANDRA KSHETRAPAL have lost original Share Certificate of FLAT NO.275, DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS CGHS LTD., BLOCK-A-3, PASCHIM VHAR, NEW DELHI, finder please contact: 993571872!

पब्लिक नेटिया पब्लिक नेटिस

SHARAD RAJ GUPTA for all

All the 3 letters earl

OUNTAINTS
BLOCK-A-3,
HARN NEW
HIMANSHU VERMA within 90 days
ase contact:
PD(1949)C

HIMANSHU VEKMA having address at H104 FRIENDS APPT PLOT NO-49C PLOT NO-48 IP EXTN PATPARGANJ NR MADHU VIHAR GURUDWARA, DELHI-110092 with KOTAK MAHINDRA BANK SHOP NO 1TO 6, PATPARGANJ DELHI-110092 remains un-operated from last 8 years, 10 months.

KAPRE AND ALKA S KAPRE within

# **O**kotak

remains un-operated from years, 8 months.

PRESS TRUST OF INDIA | United Nations

PRESS TRUST OF INDIA United Nations

India said that the open confession of Pakistans Defence Minister Khawaja Asif admitting to his country's history of supporting and funding terrorist organisations exposes Pakistan as a 'rogue state' fuelling global terrorism and destabilising the region. India's Deputy Permanent Representative to the UN, Ambassador Yojna Patel delivered a strong Right of Reply at the hybrid launch event for the 'Victims of Terrorism Association Network' (VoTAN) of the UN Office of Counter-Terrorism here Monday when Pakistanis delegate made a reference to the Country of the Country of the UN Office of Counter-Terrorism here Monday when Pakistanis delegate made a reference to the Country of the Country of the UN Office of Counter-Terrorism learning the UN Office of Counter-Terrorism and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India', Patel said.

'The whole world has heard the Pakistani 'The whole world has heard the Pakistani' The whole world has heard the Pakistani'.

Patel said.

The whole world has heard the Pakistani Defence Minister Khawaja Asif admitting and confessing Pakistanis history of supporting, training and funding terrorist organisations in a recent television interview, she said. Patel asserted that this open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue stafe fueling global terrorism and destabilising the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add; she said.

In a recent interview on Sky News, Asif said

turn a blind eye. I have nothing further to add', she said.
In a recent interview on Sky News, Asif said Well, we have been doing this dirty work for the United States for about three decades, you know, and West, including Britain for a comment that he admits that Pakistan has had a long history of backing, supporting, training and funding these terrorist organisations.
Also, India said that the 'Strong unequivocal' support and solidarity extended by global leaders in the wake of the terrorist attack. In Pahagam is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism.
The Pahagam terrorist attack represents the largest number of evillan casualities since the horrific 2011 Numboi attacks in 2008.
Patel said. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact stands the long-lasting impact stands the long-lasting impact stands the long-lasting impact.

Registered office 711,/92, Deepali Nehru Place, New Delhi-110019 CIN no : U70100DL2010PTC21040



### CHANGE OF NAME

HARSHIT SONI SON IN Rakesh Kumar R/O1-5/80, 1st Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027 have changed my name from HRITIK to HARSHIT SONI and henceforth I will be known as the HARSHIT SONI for all numbers. purpose.

I, hitherto known as SHARAD RAJWANSHI son of Mr. DUSHYANT GUPTA, an Advocate by Profession and residing at C-19, First Floor, Ashoka Enclave, Peera Garhi, New Delhi 110087 changed my name and shall hereafter be known as SHARAD RAJ GUPTA for all

PD(1950)A I MOHD WASIM AKHTAR s/o MOHD WASIM ARTHAR S/O MOHD NAZIRUL HAQE r/o WZ-245A, First Floor, Madipur Village, Delhi-110063 have changed my name as MD WASIM AKHTAR.

purpose.

PD(1951)A

### LOST & FOUND

I, PREM KSHETRAPAL, wife of SH. SUBHASH CHANDRA KSHETRAPAL have lost original Share Certificate of FLAT NO.275, DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS GHS LID., BLOCK-A-3, PASCHIM VIHAR, NEW DELHIL, finder please contact: DELHI, finder please contact:

> Parking 14.05.2025 | New De khera), / 2º Entry | Character | New De khera), / 2º Entry | Character | Character | New De khera), / 2º Entry | Character | Character | New De khera), / 2º Entry | Character | New De khera (375 Sq Mrs), Shahabad Nebsite particulars where complete details of -Auction can be seen

PD(1949)A

**NORTHERN RAILWAY** 

All contractors who intend to participate in the e-auctions conducted through E-Auction Leasing module of IREPS should fulfil following mandatory requirements before they can submit their blass: Registration on IREP's for E-Auction Leasing module -Audive IREPs and for E-Auction Leasing Worlds - Phyment of One Time Registration Fig. 6. Current

ink on IREP's Home page.

Railway Authority to contact, in case of state Entry Road, New Delmi 110055. Email: pkg delhidivision@gmaili.com Tel: 011-23743084

SERVING CUSTOMER WITH A SMILE



Deputy Permanent Representative to the United Nations Yojna Patel at the launch of the victims of Terrorism Association Network, in New York

their families and society,' Patel said during

their families and society, Patel said during the launch of the event. She said that 'India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and govern-ments across the world in the wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism'.

zero tolerance for terrorism.' Global leaders, including US President

Donald Trump, US Vice President JD Vance, Russian President Vladimir Putin, UK Prime Minister Keir Starmer, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, French President Emmanuel Macron, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and UN Secretary General Antonio Guterres condemned the Pahalgam terror attack and expressed their condolences and solidarity with India. "Acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally, she said. India also termed the establishment of the as a significant step, assing it will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. "India believes that initiatives like VoTAN are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the entre of our collective efforts, Patel said.

remain at the centre of our collective efforts,' Patel said.

The hybrid launch event commenced with a video showing testimonies of survivors and families of victims of terror attacks around the world, including by survivor of the 26/11 Mumbai terror attack Karambir Singh Kang, Nidhi Chaphekar and the son of a woman killed in the 1985 bombing of Air India flight 182 en route from Toronto to London. London.

London.

Kang, who was the General Manager of the Taj Mahal Hotel in Mumbai when the 26/11 terror attacks occurred, lost his wife and two sons in the barbaric attack. Chaphekar is a survivor of the ISIS bombing at Zaventem

NOTICE

GR & 1ST FLOOR, PLOT NO 9, LSC

All the 3 letters earlier sent to MONIKA AND HIMANSHU VERMA calling upon them to clear dues and to operate the locker has returned unserved and they are not contactable.

It is hereby informed that despite thi notice, if dues not cleared and locker is not operated by MONIKA AND HIMANSHU VERMA within 90 days from the date of this notice, break

HIMANSHU VERMA having ATH 104 FRIENDS APPT PLOT NO-49C PLOT NO-48 IP EXTN PATPARGANI NR MADHU VIHAR GURUDWARA, DELHI-110092 with KOTAK MAHINDRA BANK SHOP NO 1TO 6,

NIKA ANI

Airport in Brussels, Belgium, in March

Airport in Brussels, Belgium, in March 2016.

She was a cabin manager for the Indian air-line Jet Airways and became the face of the victims and survivors of the terror attack after a photograph, showing her slumped on a chair at the airport, her stunned face bloodied and covered in dust and her yellow Jet Airways uniform blazer ripped apart, show-cased to the world the horror of the attack. Vo TAN is an initiative bringing together victims of terrorism and victims associations. Wo TAN is an initiative bringing together victims of terrorism and victims association of the control of th

### PUBLIC NOTICE **Cokotak**Kotak Mahindr

26 Barantambe need Commign. 119001), or with any other business ted by Mr. Shailendra Mohan Mishir i by bin. ....
into is being issued po...,
rency and to prevent any possible co...
communication. For any further informe
free to Contact: 9811354

1000 Trees Housing Private Limited

hereas 1000 Trees Housin

nd whereas severa dividuals/persons have mad ookings or entered int greements for the allotment o nit(s) in the said Project. masymus said Project and whereas the Director Town? ountry Planning, Haryana nandgard, wide memo no. LC 349/LE(AV)2025/15349 dated is in inciple approval for Change is eneficial interest in favour of 2007 rose. Housing Privatumitted and has directed mippary to invite objections it is regard. this regard. Accordingly, vide this public notice, objections are hereby mindled from allottesspublic. For that purpose a copy of the aforementioned in an incipilation approval dated. 25.04.2025 is a considered to the approval dated. 25.04.2025 is a considered to the approval of the approval of the approval of the office of the undersigned at ATS Tower, of the approval of the objection of the undersigned at ATS Tower, of the approval of the a

Before Debts Recovery Tribunal-II, Delhi

Delote Deuts Recovery intuntient, Jedin Fr. Fonz. Jewen Tar Building Printmer Street. New Delet-11001.

Notice under scient in 1944 of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act Jan Street with River 13d of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rula) 1990); in the matter of Rula No. 975-2023. Date: 24.12.2024.

STATE BANK OF INDIA. APPLICANT VERSUS.

Versus MUKESH KUMAR & ORS. RESPONDENT

Defendant D1. MUKESH KUMAR SIO RAJENDER YADAV Monte Britania (1997 Gall No 16 Histal Radi Utam Nagar De 1959, Also At - Mis Zest Ortho, AG-215 B Be Shafmari Bagh Delhi-88, Also At - T. Flat 802 Tower Speed S2 8th Floor Solitainian 1981 Isomasi Green Sports City SDZ Ga.

1000 Trees Hous Private Limi

https://ireps.gov.in/

By order of the Tri SECTION OFFICER, DRT-II,

### kotak Kotak Mahind NOTICE

NOTICE
Locker Hired by SUIAT B KAPRE AND
ALKA S KAPRE having address at D702 PRINCE APPT PLOT NO-54 I P
EXTN NEAR PANKAI PLAZA
PATPARGANI, DELHI-11092 with
KOTAK MAHINDRA BANK SHOP NO
170 6, 6R 8.15T FLOOR, PLOT NO9,
EXC. MANDAWALI, FAZALPUR, IP
EXT, PATPARGANI DELHI-110092
EXTRAINS LONGOREATED FOR LIST & SECTION 125T remains un-operated from last 8 years, 8 months.

MANDAWALI, FAZALPUR, IP EXT, PATPARGANI DELHI-110092 remains un-operated from last 8 years, 10 months. All the 3 letters earlier sent to SUJA B KAPRE AND ALKA S KAPRE callin upon them to clear dues and to operate the locker has returned unserved and they are not contactable.

It is hereby informed that despite this notice, if dues not cleared and locker is not operated by SUJAT B KAPRE AND ALKA S KAPRE within 90 days from the date of this notice break open of the said locker will b done on **July 29** , **2025** at aroun open of the said locker will be done on July 29, 2025 at around 12p.m. done o

APPENDIX IV-A

[UNDER RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002)
E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

office Asses Finance Limited (Formerly Known as People Finance Limited (Formerly Known as People Finance) Limited (Formerly Known as People Finance) and "Whatever is there Bestel" on the cate and time specified in the Secured Creditor from the Benower(s) and the Co-Borrower and from

Dec.   Dec.	Borrower/ Do-Borrower (c) / security providen's	Property	Possession	Date of Demand Notice	for submission of BID EMD	Time of E-Auction	Price (Rs)	Money Deposit (10%) (Rs.)	Due as on 18.10. 2023
	Kerki Sje Shiri J S Kerki (Borower) Shit Mamatie Rajnish Kerki Wie Shir Rajnish Kerki (Co-	Fibot erected on L-1/13, Haue Khas Enclave, New Dath 110016 acmess ring 625 cc, yards, by virtue of Baggonaed Safe Deed New York occistration No. 3735 in book No. 1, Volume				2025 from 11 am on ward till	10,00,00, 000/- (Rupees Ten Grore	1,00,00. 008- Papers One Ordre	707/eij005- (Puters) Seven Dore Seven Dore Seven Lains Forty Five Thousand Egit Hundred And Eight Crity is on 12/08/2025 Rs 1/stvalus- Sivven Drore sidly laint softy three thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand two- thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousand thousan

	Details
Name of Bank & Branch	ICICI BANK LTD, MCTE NAGAR, DELH
Name of Beneficiary	AKASA FINANCE LIMITED
Account No.	038465003562
IFSC Code	10:00002395

For Akasa Finance Li Authorised 0

# PUBLIC NOWICE

AD REM LEGAL SOLUTION

(h. hz. 76-) Dwafe Cour Sector-10, Dwafe, New Delh-75

Mobile :- 9899013918

PUBLIC NOTICE

Roseur for all that mye Lenk Sinh Archard Bard

Ch. No. 760 - Durata Court Sector 10, Durata, New Definition

On. No. 760 - Durata Court Sector 10, Durata, New Definition

Mobile :- 9899013918 PUBLIC NOTICE

SHIVKANT ARORA, ADVOCATE FOR MIS INTELLECTIVE LAW OFFICES A-74 LOWER GROUND FLOOR

E-TENDER NOTICE

05/GM/ Sr. M.(E&M)-II/ 2025-26/ET, Beautification with MS CNC Cut Grill with illuminated Noida Logo and LED Bollard lights at Five various Junction at Zonal Road No-6 & Sec-62

06/GM/ Sr. M.(E&M)-II/ 2025-26/ET, Providing 630 KVA CSS 8

HT Line at Sector-14A. Nolda Cost Rs. 53.49 Lacs O7/GMI. Sr. M. (E&M)-IIV 2025-26/ET. Beautification with MS CNC Cut Grill with illuminated Nolda Logo and LED Bollard lights at DM Chowk in Sector-27, Nolda002E CostRs 54.37 Lacs.

Which can be uploaded by date: 13.05.2025 upto 5.00 PM Pre-qualification shall be opened/downloaded on date: 14.05.2025 at 11.00 AM.

60/GM (E&M)/S.M./E/M-III/24-25, Annual maintenance & Repairing of Fountain in Sector-39,40,46,47& 48, Noida

Which can be uploaded by date: 06.05.2025 upto 5.00 PM Pre-qualification shall be opened/downloaded on date: 07.05.2025 at 11.00 AM.

General Manager (E&M CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

Hatar Bharat G.E. Co-operative Group
Housing Society Ltd.
6-38 - Societies, New Ambatis
1893 Select All Societies, New Ambatis
1893 Select Societies, New Ambatis
1894 Select Societies, New Ambatis
1895 Select So

PARADIP PORT AUTHORITY

PARADIP PORT-154142, ODISNA INDU ADMINISTRATIVE CENTATE WHICH No AIDEST/RENL-01/2023/1792 Dt 2.10.4 2022 — e-Tender Call Notice has been float inviting bids for the work "Providing Field Office Assistance for State Works for period of 2 (two) years." The date a available of documents in website is no comment of the period of 2 (two) years." The date a available of documents in website is no comment of the period of 2 (two) years." The date a available of documents in website is no available of documents in website 22.04.2025 to 13.05.2025 at 16.00 h details, please log on the w

Sd/- Sr. Asst. Estate Manager Paradip Port Authority PPA/PR/08/2025-2026 dtd.29.04.203

Uttar Bha

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

I WIFE OF LATE MER RESIDENT LAXMI NAGAR,

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all concerned and the general public is hereby informed that the Environmental Clearance pearing File No. SEAC/HR/2024/122 & EC Identification No. beang His No. SEACHH/2024/122 & C. Identhication No. EC24C3601H78698934N dated 06/12/2024 has been granted to M/S KAMAL IDEAL INFRATECH PRIVATE LIMITED AND OTHERS for Development of Residential Group Housing Colony Located at Sector-64. Sonipat-Kundi, Multifunctional Urban Complex, Harpan Copy of Clearance Letter is available on the website of MOEFCO/SEIN.

### NORTHERN RAILWAY

Name or work | Supply of Electrical Intervehicular Coupler Spare | MEMU (ICF Rakes) & 8 Can Conversion to 12 Car For | Approx. cost of work | 99,23,800/-

Website particulars where complete details of tender documents can be seen

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

### NORTHERN RAILWAY

NOTICE FOR E-AUCTION

NOTICE FOR E-AUCTION

Period Divisional Commercial ManagedFreight. Delin Division. Northern Railway in terms of Railway Board letter as 22/1C/EMI/1004 dated 13/16/2022, which bets indeed, #Auction letwarings govern between ground of acreel space of SLI ampartments for a period of two years as per ideal and schedule given below.

Assets to be auctioned

1.		12034 (F1), 12191 (F1 & F2) , 12215 (F1), 12428 (F1) (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
	at 10:30 am	and Sunday), 12444 (F1), 12457 (F1 , F2 & R1), 12562 (F1), 12874 (F1), 12963 (F1), 14041 (R1)
		(Sunday), 14507 (F1, F2 & R1), 15035 (F1 & R1), 19338 (F1), 20806 (F1), 20958 (F1), 22421 (F1), 22429
		(F1), 22463 (F1), 22806 (F1).
2.	08.05.2025	12005 (F1), 12038 (F1), 12055 (F1), 12057 (F1), 12060 (F1) (Monday and Tuesday), 12191 (R1), 12425
	at 10:30 am	F11 12816 (F11 14206 (F1) 14331 (F1 F2 & R1) 14714 (F1) 15058 (F1) 20452 (F1) 22168 (R1)

Notes: 1. For more information, requirement and various depends regioning various responses, many various depends regionally various responses, many various depends regionally various depends on the following region of the following region (regional regions) and regional region (regional regions) and regional region of the following region (regional regions) and regional region (regional regional regional

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

 x1 (93.0 am)
 (£1), (285) (£1), (426) (£1), (423) (£1), (428) (£1), (424) (£1), (90.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29.8) (£1), (29